



HAMIRPUR POLICE



दिनांक-01.08.2021 से दिनांक-31.08.2021 तक कार्यवाही का विवरण

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर श्री कमलेश दीक्षित के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत माह अगस्त 2021 दिनांक 01.08.2021 से दिनांक 31.08.2021 तक जनपद के समस्त थाना पुलिस द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई:-

- जनपद पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण/ अवैध असलहा के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए कुल 61 अभियोग पंजीकृत किए गए, कुल 48 अवैध तमंचा, 02 देसी पिस्टल, 01 एसबीबीएल रायफल, 01 रायफल, 76 कारतूस, एक असलहा फ़ैक्ट्री व 07 चाकू सहित कुल 64 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- जनपद पुलिस द्वारा जुंआ/ जुंआरियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 70 अभियोग पंजीकृत किए गए, कुल 4,76,100/- रुपये (मालफ़ड़- 4,28,481/- व जामा तलाशी-47,620/-) के साथ कुल 325 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- जनपद पुलिस द्वारा अवैध गांजा के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 24 अभियोग पंजीकृत किए गए, कुल 46 किलो 420 ग्राम अवैध गांजा के साथ 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

- जनपद पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 153 अभियोग पंजीकृत किए गए, कुल 1191 लीटर अवैध शराब एवं 06 शराब भट्टी सहित कुल 154 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- जनपद पुलिस द्वारा वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाकर कुल 66 वांछित अभियुक्तों एवं कुल 15 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों को चिन्हित कर 16 अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई।
- थाना जरिया पुलिस द्वारा 02 अपहृताओं को दो दिवस में सकुशल बरामद किया गया साथ ही कब्जे से घर से ले जाया गया संपूर्ण सोना (अनुमानित कीमत करीब 16 लाख) एवं 02 लाख नगद बरामद किया गया।
- थाना सुमेरपुर एवं थाना मौदहा पुलिस द्वारा पशु चोर गिरोह का खुलासा करते हुये 06 पशु चोरों को अवैध असलहों एवं 06 चोरी की बकरियों व 02 चोरी की भैंसों के साथ गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया।
- थाना राठ पुलिस द्वारा 25,000/ का इनामियाँ, चोरी/लूट की घटनाओं के वांछित अभियुक्त रामबरन पुत्र इन्द्रपाल राजपूत निवासी इछौरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा/कारतूस सहित गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
- थाना मौदहा पुलिस द्वारा 10,000/ का इनामियाँ, हत्या के प्रयास का वांछित अभियुक्त सुम्मा पुत्र चुनुवाद उर्फ रहमान

निवासी ग्राम परछा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को अवैध तमंचा/कारतूस सहित गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

- थाना बिंवार पुलिस द्वारा 10,000/ का इनामियाँ, हत्या की घटना का वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र हरीसिंह निवासी ग्राम महेरा थाना बिंवार जनपद हमीरपुर को अवैध तमंचा/कारतूस सहित गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
- थाना मौदहा एवं थाना मुस्करा पुलिस द्वारा अंतर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 06 अभियुक्तों को चोरी की 16 अदद मोटरसाइकिल, 01 ई-रिक्शा, 05 तमंचा एवं 06 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।
- थाना कुरारा पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूटा हुआ कुल 01 लाख 5 हजार रूपया नगद, एवं लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक अदद तमंचा देशी 315 बोर/02 अदद जिन्दा कार0 नाजायज 315 बोर बरामद किया गया।
- बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सतत प्रयत्नशील हमीरपुर पुलिस-जनपद पुलिस द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को जाना व उनको दैनिक उपयोग की वस्तुओं सहित भोजन भी उपलब्ध कराया गया।

- थाना मौदहा पुलिस द्वारा एक देशी शराब ठेका के लाइसेंस धारक को अवैध तरीके से अपमिश्रित शराब निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया, कब्जे से 270 अदद अवैध देशी शराब क्वार्टर, 100 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ भारी मात्रा में शराब निर्माण की सामग्री, 169 खाली क्वार्टर शीशी व 788 अदद ढक्कन आदि बरामद हुई।
 - थाना राठ पुलिस द्वारा अ0सं0-337/21, धारा-457/380 आईपीसी से सम्बंधित चोरी की गई पिस्टल व 08 अदद कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों 1)कपिल पुत्र हरी सिंह 2)देव सिंह पुत्र रामौतार सिंह निवासीगण ग्राम इछौरा थाना विकासी को गिरफ्तार किया गया।
-